

भारतीय मानक ब्यूरो
(वित्त विभाग)

संदर्भ : वित्त/10: जीवन प्रमाण पत्र

दिनांक: 14.10.2025

विषय: जीवन प्रमाण पत्र जमा कराने के संबंध में

परिपत्र संख्या बी.आई.एस./मुख्यालय/वित्त/परिपत्र(08)/2025 दिनांक 14.10.2025 सभी संबंधित की जानकारी हेतु सलग्न है ।

हस्ता
(रितेश कुमार बरनवाल)
निदेशक (वित्त)

भामाब्यूरो इंटरनेट एंवम वेबसाइट के माध्यम से परिचालित: भामाब्यूरो के सभी अधिकारी/ कर्मचारी/सभी पेंशनर्स एवं फैमिली पेंशनर्स को सूचना एंवम अनुपालन हेतु

BUREAU OF INDIAN STANDARDS
(FINANCE DEPARTMENT)

Our Ref: FIN/10:Life Certificate

14.10.2025

Subject: Submission of Life Certificate

The Circular No. BIS/FIN/HQ/Circular(08)/2025 dated 14.10.2025 on the captioned subject is enclosed for information of all concerned.

sd/-
(Ritesh Kumar Baranwal)
Director (Finance)

Circulated through BIS Intranet and Website: for compliance of all officials/Pensioners/Family Pensioners of BIS

BUREAU OF INDIAN STANDARDS
(FINANCE DEPARTMENT – HQ)

Sub: Submission of life certificate

1. As per the provisions of CCS (Pension Rules) 1972, all pensioners and family pensioners are required to submit Life Certificate in the month of November every year to the Pension Disbursing Authority (PDA) for continuation of the pension. The formats of the following certificates are enclosed herewith:

- a) Life Certificate (Annex-A)
- b) Non Employment/Re-employment Certificate (Annex-B)
- c) Certificate of remarriage/Marriage (for family pensioner only) (Annex-C)

2. The above certificates duly filled may be sent back to Pension Section, Finance Department so that payment of pension may be continued for the month of November 2025 onwards. It may please be ensured that these certificates shall reach Pension Section by 15 November, positively.

3. Pensioners/family pensioners residing abroad may submit the certificate by any of the methods prescribed in the O.M. No. 1(8)/2021-P&PW(H)-7468 dated 22nd September 2021.

4. Further, all pensioners/family pensioners were requested to intimate the details of savings etc. for the purpose of allowing deductions in Income Tax as per rules. Pensioners/family pensioners, who have yet not submitted Form 48A, may submit the same immediately, alongwith supporting documents, to enable Pension Section to allow admissible deductions in Income Tax.

5. All the pensioners/family pensioners are also requested to advise their legal heirs/family members/care takers to intimate Pension Section/Finance Department and the pension disbursing bank in case of demise of the pensioner/ family pensioner immediately.

6. **Life Certificate through Jeevan Praman Portal: For Pensioners/Family Pensioners:** Pensioners/Family Pensioners have the option to avail themselves of the facility of submitting Digital Life Certificate (DLC) through Jeevan Praman Portal. However, it may be noted that the Digital Life Certificate (DLC) is not available to Re-married or Re-employed pensioners. Such pensioners are required to submit their Life Certificate in conventional way.

7. For any clarification, pensioners/family pensioners may contact Section Officer (Pension) at 011-23236902, E-mail: pensioners@bis.gov.in, fin@bis.gov.in.

हस्ता

(रितेश कुमार बरनवाल)
निदेशक (वित्त)

हमारा संदर्भ :मुख्या/वित्त11/2025

दिनांक : 14.10.2025

भामाब्यूरो इंटरनेट एंवम वेबसाइट के माध्यम से परिचालित: भामाब्यूरो के सभी अधिकारी/ कर्मचारी/सभी पेंशनर्स एवं फैमिली पेंशनर्स को सूचना एंवम अनुपालन हेतु



भारतीय मानक ब्यूरो BUREAU OF INDIAN STANDARDS

जीवन प्रमाण-पत्र / LIFE CERTIFICATE

(पेंशनभोगी द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले प्रमाण-पत्र साल में एक बार नवम्बर माह में)
(CERTIFICATE TO BE SUBMITTED BY PENSIONER ONCE A YEAR IN NOVEMBER)

प्रमाणित किया जाता है कि मैंने पेंशनभोगी/श्री/श्रीमति

Certified that I have seen the Pensioner/Sh./Smt. _____

(पेंशनभोगी का नाम) को जो पेंशन भुगतान संख्या

(Name of the Pensioner) holder of the Pension Payment No. _____

का धारक है, आज देखा है और वह जीवित है।

and that he is alive on this date. _____

हस्ताक्षर/Signature _____

नाम एवं पद प्राधिकृत पदाधिकारी का पदनाम

Name & Designation of authorised officer _____

(राजपत्रित अधिकारी केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार एवं बी.आई.एस. अधिकारी/
भारतीय रिजर्व बैंक/सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक के अधिकारी)

(Gazetted Officer of Central Govt./State Govt./BIS Officer/Officers of
Reserve Bank of India/Public Sector Bank)

पता

Address _____

सील/Seal

स्थान/PLACE _____

दिनांक/DATE _____

टिप्पणी : किसी प्रकार की कठिनाई की स्थिति में, पेंशनभोगी संबंधित शाखा के प्रमुख/मुख्यालय के मामलों में निदेशक (लेखा) से संपर्क कर सकते हैं।
Note : In case of any difficulty, the pensioner may contact the head of the concerned Branch/DAC in case of Head Quarters.

बरोजगारी का पुनर्नियोजन का प्रमाण-पत्र फार्म
FORM OF CERTIFICATE OF NON-EMPLOYMENT/RE-EMPLOYMENT
To be given by Pensioner once a Year in November

(अ/अ) मैं घोषणा करता हूँ कि मैं नवम्बर 20..... को समाप्त हुए वर्ष के दौरान केन्द्र अथवा राज्य सरकार अथवा संघ शासित क्षेत्र या किसी स्थानीय निधि के किसी सरकारी विभाग/कार्यालय, कम्पनी, निगम, स्वायत्तशासी निकाय अथवा सोसायटी में किसी भी रूप में कार्यरत नहीं हूँ।
 I declare that I have not been serving in any capacity either in a Government department/office company, corporation autonomous body or society of Central or state Government or Union Territory of a Local Fund during the year ended November, 20.....

अथवा/OR

(ब/ब)* मैं घोषणा करता हूँ कि मैं नवम्बर 20..... की वर्ष अथवा महीनों के दौरान जो कि उपर्युक्त वर्ष में पड़ते हैं कार्यालय में, जो सरकार का एक भाग है/द्वारा वित्त पोषित है, नियोजित/पुनर्नियोजित रहा हूँ और मुझे इस अवधि में निम्नलिखित मासिक दरों पर परिलब्धियाँ प्राप्त हुई।
 I declare that I have been employed/re-employed in the office of.....which is a part of financed bygovernment and was in receipt of the following monthly rate of emoluments during the year ended November, 20.....or during the months of falling within the said year.

(क/क) वेतन/Pay _____

विशेष वेतन/Special pay _____

भत्ते/Allowances _____

(महंगाई भत्ते, अतिरिक्त महंगाई भत्ते सहित)

(Including D.A., A.D.A. etc.)

अथवा/OR

(ख/ख) मानदेय/Honorarium _____

यह भी कि मेरे पुनर्नियोजन के आदेशों में पुनर्नियोजित की अवधि के दौरान पेंशन को रोकने से सम्बंधित शर्त है/नहीं है।

Further, that the orders of my re-employment do not stipulate my pension being held in abeyance during the re-employment period

मैं घोषणा करता हूँ कि मैंने भारत में किसी तरह का वाणिज्यिक रोजगार स्वीकार नहीं किया है।

I declare that I have not accepted any commercial employment in India.

अथवा/OR

मैं घोषणा करता हूँ कि मैंने केन्द्रीय सरकार की पूर्व अनुमति लेकर भारत में वाणिज्यिक रोजगार स्वीकार किया है और इस सम्बंध में सरकार द्वारा लगायी गयी किसी भी शर्त का, यदि कोई हो, मैंने उल्लंघन नहीं किया है।

I declare that I have accepted commercial employment in India after obtaining previous sanction of the Central Government and none of the conditions, if any, attached there to by Government has been violated.

टिप्पणी : यह घोषणा सेवा-निवृत्ति की तारीख से दो वर्ष की अवधि के सम्बंध में की जानी होती है।

Note : This declaration is required to be given for a period of two years from the date of retirement.

(ग/ग)* मैं घोषणा करता हूँ कि मैंने भारत के बाहर किसी भी सरकार/ऐसे अन्तर्राष्ट्रीय संगठन के अधीन, जिसकी कि भारत सरकार सदस्य नहीं है, कोई रोजगार नहीं किया है।

I declare that I have not accepted employment under a Government outside India/an International Organisation of which the Government of India is not a member.

अथवा/OR

मैं घोषणा करता हूँ कि मैंने भारत से बाहर किसी सरकार/ऐसे अन्तर्राष्ट्रीय संगठन के अधीन, जिसकी कि भारत सरकार सदस्य नहीं है, केन्द्रीय सरकार की पूर्व अनुमति लेकर रोजगार स्वीकार किया है और इस संबंध में सरकार द्वारा लगाई गयी किसी भी शर्त को तोड़ा नहीं गया है।

I declare that I have accepted employment under a Government outside India/an International Organisation of which Government of India is not a member after obtaining the previous sanction of the Central Government and none of the conditions attached thereto by the Government has been deviated from.

हस्ताक्षर/Signature _____

पेंशनभोगी का नाम

Name of the Pensioner _____

स्थान/PLACE: _____

पी.पी.सं./P.P. No. _____

पता/Address _____

दिनांक/DATE: _____

फोन नं./Phone No. _____

* उपर्युक्त (बी) और (सी) में उल्लिखित प्रमाण-पत्र केवल समूह "ए" के सेवानिवृत्त अधिकारियों द्वारा किये जाने हैं।

* Certificates at (B) and (C) are to be furnished only by retired Group "A" Officers.

Note : The Pensioner shall, of his own intimate the fact of his taking up re-employment/employment to the Bureau of Indian Standards, immediately on his/her doing/having done so without waiting for the month of November when the submission of yearly certificate would normally become due.



भारतीय मानक ब्यूरो
BUREAU OF INDIAN STANDARDS

अनुबंध "सी"
ANNEXURE "C"

पुनर्विवाह/अविवाहित होने का प्रमाण - पत्र
CERTIFICATE OF RE-MARRIAGE/MARRIAGE

मैं एतद्वारा घोषण करता/करती हूँ कि मैंने दोबारा शादी नहीं की है और इस प्रकार की कोई घटना होने पर पेंशन वितरण प्राधिकारी को रिपोर्ट करूंगा/करूंगी

I hereby declare that I have not got re-married and I undertake to report such any event promptly to the Pension Disbursing Authority

केवल विधवा/विधुर परिवार पेंशन प्राप्त करने वाले पर लागू होगा और केवल एक बार ही भरा जाएगा
(Applicable only for widow recipient of family pension and to be furnished only once)

अथवा/OR

मैं एतद्वारा घोषण करता हूँ/करती हूँ कि मैं अविवाहित हूँ/पिछले छः महीनों के दौरान मैंने विवाह नहीं किया है।
I hereby declare that I have not re-married/have not got married during the past six months.

प्रत्येक 6 महीने में एक बार मई और नवम्बर में विधवा और अविवाहित पुत्रियों द्वारा भरा जाएगा
(To be submitted by widowers and unmarried daughters once every six months in may and November)

हस्ताक्षर / SIGNATURE _____

पेंशनभोगी का नाम _____
Name of the Pensioner

स्थान / PLACE _____

दिनांक / Date _____

पें भुग. सं. _____
P.P. O. No. _____

मैं अपनी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास से प्रमाणित करता हूँ कि उपर्युक्त घोषणा सही है।
I certify to the bet of my knowledge and belief that the above declaration is correct.

जिम्मेदारी अधिकारी या
किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति के हस्ताक्षर
Signature of a responsible officer
or a well-known person _____

स्थान / PLACE _____

दिनांक / Date _____

नाम / Name _____

पदनाम / Designation _____

सील / Seal

Form A

(Common Nomination Form for Arrears of Pension and Commutation of Pension)

[See Rule 5 of Payment of Arrears of Pension (Nomination) Rules, 1983 and Rule 7 of Central Civil Services (Commutation of Pension) Rules, 1981]

I,, hereby nominate the person/persons mentioned below and confer on him/her/them the right to receive in the event of my death, to the extent specified below, amount on account of the following:

- i. Arrears of Pension
- ii. Commuted Value of Pension payable under Central Civil Services (Commutation of Pension) Rules, 1981

Name, date of birth (DOB) and address of the nominee	Relationship with employee/ pensioner	Share to be paid to each	If nominee is minor, name, DOB and address of person who may receive the amount on behalf of minor	Name, DOB and address of alternate nominee in case the nominee under Column (1) predeceases the employee/ pensioner	Relationship with employee/ pensioner	Name, DOB and address of person who may receive the amount if alternate nominee in Col. (5) is a minor	Contingency on happening of which nomination shall become invalid
1	2	3	4	5	6	7	8

These nominations supersede any nominations made by me earlier.

Place and date:

Signature of Government servant/Pensioner

Telephone No.

Note 1 : Completely strike out the benefit for which nomination is not intended to be made. Separate copies of this nomination Form may be used for nominating different persons for benefits (i) and (ii) above.

Note 2 : The Government servant shall draw lines across the blank space below the last entry to prevent the insertion of any name after he/she has signed. The nominee(s)/alternate nominee(s)' shares together should cover the whole amount.

भारतीय मानक ब्यूरो BUREAU OF INDIAN STANDARDS	बचत के लिए विवरण DETAILS OF SAVINGS	FI	48A
Pension Payment Order No. पेंशन भुगतान आदेश संख्या	Financial Year 20_____ to 20_____ वित्तीय वर्ष : 20..... से 20.....		
Name: Dr./Shri./Smt./Km. नाम: डा./ श्री / श्रीमती / कुमारी	Date of Birth. जन्म तिथि :		
Date of Retirement सेवानिवृत्ति की तिथि	Permanent A/c No. स्थायी खाता संख्या :		
☐ Old Tax Regime (Interested in avail benefits like Interest on House Building Advance, Standard Deduction, Section 80C etc.,) पुरानी कर व्यवस्था (हाउस बिल्डिंग एडवांस पर ब्याज, स्टैंडर्ड डिडक्शन, Section 80C आदि जैसे लाभ प्राप्त करने के इच्छुक हैं)		☐ New Tax Regime (Not interested in avail benefits like Interest on House Building Advance, Standard Deduction, Section 80C etc.,) नई कर व्यवस्था (लाभ प्राप्त करने में कोई दिलचस्पी नहीं जैसे हाउस बिल्डिंग एडवांस पर ब्याज, मानक कटौती, धारा 80 सी आदि)	
Address for Correspondence/ पत्राचार हेतु पता 			

1.	☐ Self Occupied/ स्वयं अधिग्रहित Address of the Premises / परिसरों के पते (i) _____ (ii) _____ (If employee want to declare second home as self-occupied) (यदि कर्मचारी दूसरे घर को स्व-कब्जे के रूप में घोषित करना चाहते हैं) (a) Whether any loan has been taken? क्या कोई ऋण लिया गया है ? ☐ Yes / हाँ ☐ No / नहीं (b) If yes, please specify the Name of the Bank and the Principal and Interest payable during the Financial Year यदि है तो, कृपया बैंक का नाम और वित्तीय वर्ष के दौरान देय मूलधन और ब्याज निर्दिष्ट करें <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th>Loan</th> <th>Bank</th> <th>Principal</th> <th>Interest</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Against Ist home</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Against IInd home</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">Total:</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> (c) Whether the loan in own (Single) name or Joint. ऋण स्वयं के (एकल) नाम पर हो या संयुक्त रूप से। ☐ Single / एकल ☐ Joint / संयुक्त (d) If in Joint name please specify the percentage of the rebate being claimed under section 24(1) यदि संयुक्त नाम में, तो कृपया धारा 24 (1) के तहत दावा की जा रही छूट का प्रतिशत निर्दिष्ट करें	Loan	Bank	Principal	Interest	Against Ist home				Against IInd home				Total:			
Loan	Bank	Principal	Interest														
Against Ist home																	
Against IInd home																	
Total:																	
2.	Any other income अन्य कोई आय: a) In the form of fees, honorarium, etc. received or expected to be received during the above period with details. क) विवरण सहित उपरोक्त अवधि के दौरान प्राप्त या प्राप्त की जाने वाली फीस, मानदेय इत्यादि के रूप में																

	b) i) Income from House Property received in the financial year ख) (i) वित्तीय वर्ष में प्राप्त हाउस प्रॉपर्टी से आय ii) Capital Gain पूंजीगत लाभ c) Interest from other sources such as Dividend/interest ग) लाभांश/ब्याज जैसे अन्य स्रोतों से ब्याज	
3.	Particulars of savings qualifying u/s 80-C of the Income Tax Act आयकर अधिनियम की धारा 80 - सी के तहत बचत के विवरण	
i.	Any sum paid by an individual as Life insurance premium for himself, spouse and children or paid by an HUF for any member of his family. स्वयं , पति/ पत्नी एवं बच्चों की जीवन सम्बन्धी जीवन बीमा प्रीमियम के रूप में व्यक्तिगत रूप से किये गये	
ii.	Contribution to Provident Fund भविष्य निधि अंशदान	
iii.	Contribution to superannuation fund सेवानिवृत्ति निधि का अंशदान	
iv.	Contribution/subscription to NSC or ULIP or ELSS or Recognised Pension Funds एन एस सी या यूलिप या ई एल एस एस या मान्य पेंशननिधियों के अंशदान/शुल्क	
v.	Fixed Deposit with any schedule bank for at least 5 years कम से कम 5 वर्षों के लिए किसी अनुसूचित बैंक में सावधि जमा	
vi.	Payment of tuition fees (excluding development fees or donation etc) for maximum two children for full time education to Recognised university, college, school or other educational institution situated in India. भारत में स्थित विश्वविद्यालय, कॉलेज, विद्यालय या अन्य शैक्षिक संस्थान में पूर्णकालीन अधिकतम 2 बच्चों के लिए शिक्षण शुल्क (विकास-शुल्क या दान इत्यादि को छोड़कर) का भुगतान	
vii.	Any sum deposited in an account under the Senior Citizens Saving Scheme, 2004. The account in the scheme can be opened by an individual, वरिष्ठ नागरिक बचत योजना, 2004 के तहत खाते में जमा की गई राशि । योजना में खाता व्यक्तिगत रूप से खोला जा सकता है । a) Who has attained age of 60 years or above on the date of opening of the account? खाता खोलने की तिथि को खाता खोलने वाले की उम्र 60 वर्ष या इससे ऊपर हो चुकी हो जिनकी आयु b) Who has attained the age 55 years or more but less than 60 years and has retired under a Voluntary Retirement Scheme or a Special Voluntary Retirement Scheme on the date of opening of the account within three months from the date of retirement. जिनकी आयु 55 वर्ष या अधिक लेकिन 60 वर्ष से कम हुई हो तथा सेवानिवृत्ति की तिथि से तीन महीनों के भीतर खाता खोलने की तारीख को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना या विशेष स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के तहत सेवानिवृत्ति हुये हो c) No age limit for the retired personnel of Defence services provided they fulfil other specified conditions. रक्षा सेवाओं के सेवानिवृत्त कर्मियों के लिए कोई आयु सीमा नहीं है बशर्ते वे अन्य विशेष शर्तें पूर्ण करते हो	

viii.	Any sum deposited as five years time deposit in an account under the Post Office Time Deposit. पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट के तहत खाते में 5 वर्ष के लिए जमा के रूप में जमा की गई कोई राशि	
ix.	Contribution to 'Sukanya Samridhi Account' which can be opened at any time from the birth of a girl child till she attains the age of 10 years (with a minimum deposit of Rs. 1000) बेटी के जन्म से, एवं उसकी 10 वर्ष की आयु होने तक किसी भी समय 'सुकन्या समृद्धि खाता' खोला जा सकता है और उसका अंशदान (न्यूनतम 1000/- रुपये) है	
4.	Particulars of deduction qualifying u/s 80-D of the Income Tax Act <i>Medical Insurance Premium & Contribution to CGHS Scheme</i> (Deduction is available upto Rs. 25,000/ for self/ family and parent/ parents of the assessee .In case of senior citizens, a deduction upto Rs. 50,000/-) आयकर अधिनियम की धारा 80-डी के तहत कटौती के विवरण (चिकित्सा बीमा प्रीमियम एवं सी जी एच एस योजना का अंशदान (करदाता स्वयं / फैमिली और पेरेन्ट्स के लिए रुपये 25000/- तक कटौती उपलब्ध है और करदाता स्वयं / फैमिली और पेरेन्ट्स वरिष्ठ नागरिक होने की स्थिति में अधिकतम रुपये 50000/- तक कटौती उपलब्ध है)	
5.	Particulars of deduction qualifying u/s 80-DD of the Income Tax Act <i>Expenditure on Medical Treatment of a dependant being a person with permanent disability (including blindness) or mentally retarded, which are covered under section 56(4) as certified by a specified physician or psychiatrist</i> (Maximum Eligibility Rs. 75,000/-, in case of severe disability max eligibility Rs. 1,25,000/-) आयकर अधिनियम की धारा - 80 डी डी के तहत कटौती के विवरण फिजिशियन या मनोचिकित्सक द्वारा प्रमाणित के रूप में धारा 56(4) के तहत स्थायी अक्षमता (अंधपन सहित) या दिमागी तौर पर दिवालिया सहित एक व्यक्ति के नाते आश्रित चिकित्सा उपचार संबंधी व्यय (अधिकतम पात्रता रुपये 75000/-गंभीर अक्षमता के मामले में अधिकतम योग्यता रुपये 125000/-)	
6.	Particulars of deduction qualifying u/s 80-DDB of the Income Tax Act <i>Expenditure on Medical Treatment actually incurred by resident assessee on himself or dependent relative for medical treatment of specified disease or ailment. The diseases have been specified in Rule 11DD. A certificate in form 10I is to be furnished by the assessee from a specialist working in a Government hospital</i> (Maximum Eligibility Rs. 40,000/-, in case of senior citizen max eligibility Rs. 1,00,000/-) आयकर अधिनियम की धारा-80 डी डी बी के तहत कटौती के विवरण विशेष बिमारी या रोग के चिकित्सीय उपचार के लिए स्वयं या आश्रित संबंधी पर आवासीय करदाता द्वारा वास्तविक रूप से खर्च किये गये चिकित्सीय उपचार संबंधी व्यय । बिमारी को नियम 11 डी डी में निर्दिष्ट किया गया है । फॉर्म 10I में एक प्रमाण पत्र सरकारी अस्पताल में कार्यरत विशेषज्ञ से लेकर करदाता का द्वारा प्रस्तुत किया जाना है । (अधिकतम पात्रता रु 40,000/-, और वरिष्ठ नागरिकों की अधिकतम पात्रता के मामले में रु. 1,00,000/-)	
7.	Particulars of deduction qualifying u/s 80-E of the Income Tax Act <i>Payment/ Instalment of loan taken from any Financial Institution for Pursuing Higher Education.</i> (8 Years from the year of loan taken or till the completion of the period of loan whichever is earlier) FY of Loan Taken	

	आयकर अधिनियम की धारा 80-ई के तहत कटौती के विवरण (उच्च शिक्षा लेने हेतु किसी भी वित्तीय संस्थान से लिये गये ऋण का भुगतान / किस्त लिये गये ऋण के वित्तीय वर्ष में लिये गये ऋण के वर्ष से 8 वर्ष या ऋण की सम्पूर्णता की अवधि तक, जो भी पहले हो)	
8.	Particulars of deduction qualifying u/s 80-EEB of the Income Tax Act <i>A deduction for interest payments up to Rs. 1,50,000 is available under Section 80EEB to Individuals having an electric vehicle. The said Loan must be taken from a financial institution or a non-banking financial company for buying an electric vehicle and such loan must be sanctioned anytime during the period starting from 1 April 2019 till 31 March 2023.</i> आयकर अधिनियम की धारा 80-ईईबी के तहत कटौती के विवरण इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वाले व्यक्तियों को धारा 80 ईईबी के तहत Rs. 1,50,000 तक के ब्याज भुगतान की कटौती उपलब्ध है। उक्त ऋण को एक इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने के लिए किसी वित्तीय संस्थान या गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी से लिया जाना चाहिए और इस तरह के ऋण को 1 अप्रैल 2019 से शुरू होकर 31 मार्च 2023 तक किसी भी समय स्वीकृत किया जाना चाहिए।	
9.	Particulars of deduction qualifying u/s 80-U of the Income Tax Act <i>(Max Eligibility 'Rs. 75,000/- , in case of severe disability max eligibility of Rs. 1,25,000/-)</i> आयकर अधिनियम की धारा 80-यू के तहत कटौती के विवरण (अधिकतम पात्रता Rs. 75,000/- , गंभीर अक्षमता के मामले में Rs 1,25,000/- अधिकतम पात्रता)	
10.	Details of any other Deduction/Exemption claimed not listed above (Please verify relevant Section of Income Tax Act) किसी भी अन्य कटौती / छूट का विवरण ऊपर सूचीबद्ध नहीं है (कृपया प्रासंगिक आयकर अधिनियम की धारा सत्यापित करें)	
I. I hereby declare that the above information is true and correct to the best of my knowledge and belief. I also undertake that the copy of Investments /documents will be handed over by me to the Finance Department at Head Quarter. i. For Investments already made till date- along with this Declaration Form ii. For proposed investments to be made at future date- on or before 31st December , failing which T.D.S. shall be deducted accordingly. मैं एतद्वारा घोषणा करता / करती हूँ कि उपरोक्त सूचना अपनी सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार पूर्णतः सही है । मैं यह भी वचन देता/ देती हूँ कि वित्त विभाग को अपने निवेश की प्रतियाँ / दस्तावेज उपलब्ध कराऊंगा / कराऊंगी। i. इस घोषणा फार्म सहित आज की तिथि तक किये गये पूर्व निवेशों हेतु ii. 31 दिसम्बर तक या इससे पहले भविष्य हेतु किये जाने वाले प्रस्तावित निवेशों हेतु जिसके लिए टी डी एस तदनुरूप काटा जायेगा । II. I further undertake that in case some interest or other liability arises on Bureau due to my default the same may be devolved upon me. मैं यह भी वचन देता / देती हूँ कि मेरी कमी के कारण ब्यूरो पर उपजे किसी ब्याज या अन्य देयता के मामले में मुझ पर अवक्रमिक की जा सकती है ।		
Date: Place :		Signature : हस्ताक्षर Name : नाम PPO: पी पी ओ संख्या: